

Contents

गज़लें

- अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख़्वाबों में मिलें
Like withered flowers in the books, it seems 27
- नज़र बुझी तो करिश्मे भी रोज़ो-शब के गए
All the sights of day and night have with our eyes
gone away 29
- सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं
People feast on her beauty, it is said 31
- अब के रूत बदली तो खुशबू का सफ़र देखेगा कौन
This time when the season changes who will
witness the arrival of spring 35
- वहशतें बढ़ती गई हिज़्र के आज़ार के साथ
My eccentricity increased further with the
sorrows of parting 39
- अब क्या सोचें क्या हालात थे किस कारण ये ज़हर पिया है ।
I have left her town and closed my eyes on it 43
- उसने सकूते-शब में भी अपना पयाम रख दिया
Lighting the terrace with full moon on the night
of separation 45
- वो गया तो साथ ही ले गया सभी रंग उतार के शहर का
Somebody who had come to our city 47
- क्यों न हम अहदे-रिफ़ाक़त को भुलाने लग जाएँ
The wound may take a long time healing 49
- क़ुरबत भी नहीं दिल से उतर भी नहीं जाता
Neither does she love me nor can I forget her 51

तुरबतों में भी जुदाई के ज़माने माँगे	
In the grave too, it wants to be lonely	53
ये तफ़ावुतें हैं मेरे खुदा कि ये तू नहीं कोई और है	
These are such contradictions, O God	55
इस कदर मुसलसल थीं शिद्दतें जुदाई की	
I was so much wracked by the sorrows of separation	57
उससे पहले कि बेवफ़ा हो जायें	
Before we breach each other's faith	59
तुझको मांग रहा हूँ कबूल कर कि न कर	
I want you to be mine, you of course	61
ज़िंदगी की अब नयी राहें बना दी जायेंगी	
Bodies will collapse and the walls will be	
broken all around	63
शायद कोई ख्वाहिश रोती रहती है	
Some desires perhaps keeps crying	65
रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ	
You may be cross with me, but to hurt me, if for	
nothing else, do come still	67
वो जो आ जाते थे आँखों में सितारे लेकर	
He who would come with stars in his eyes	69
तेरा ग़म अपनी जगह दुनिया के ग़म अपनी जगह	
Sufferings of the world are real	71
कल पुरसशे अहवाल जो की यार ने मेरे	
Yesterday, when my friend enquired my well-being	73
बदन में आग है चेहरा गुलाब जैसा है	
The face glows like a rose	75
न अब जवाज़ है न मौका है हाथ मलने का	
It is not the time to repent	77
अभी कुछ और करिशमे ग़ज़ल के देखते हैं	
O Faraz, let's now change our tone a little	79

हर कोई दिल की हथेली में है सहारा रक्खे Everybody holds a desert in his palm	81
खुद को तेरे मीयार से घटकर नहीं देखा I have never found myself below your standard	83
करूँ न याद मगर किस तरह भुलाऊँ उसे Alright, I w'll not remember, but how do I forget him	85
शे'र किसी के हिज़्र में कहना हर्फे-विसाल किसी से I write verses for one and ask of somebody else for union	87
सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते-जाते He broke all bonds as he left from here	89
अगर किसी से मरासिम बढ़ाने लगते हैं If I ever think of forming a relationship new	91
दिल गिरफ़्ता ही सही बज़्म सजा ली जाये We may be sad, but the gathering must be held	93
शामे-शबे-फ़िराक़ है, दिले नामुराद संभल के रो Like the candle on the night of parting	95
जुज़ तेरे कोई भी दिन रात न जाने मेरे Nobody except you can my state comprehend	97
चलो कि कूचा-ए-दिलदार चलके देखते हैं। Let us go to the lovers' street, and see	99

नज़्में

क़लम सुखरू है The pen is satisfied	103
चलो उस बुत को भी रो लें Let us mourn her also	109
वापसी Return	117
हवाओं की बशारत Tiding from the Winds	119

दोस्ती का हाथ	
Hand of friendship	121
हम अपने ख्वाब क्यों बेचें	
Why should we sell our dreams	125
ख्वाब मरते नहीं	
Dreams never die	131
गाओ	
Sing	133
और तेरे शहर से	
And from your city	135
चाँद रुकता है न...	
Neither the moon stops by...	137
नई मुसाफ़त का अहदनामा	
The contract of a new journey	139
दुश्मन का क़सीदा	
Euology to the enemy	143
इतने चुप क्यों हो	
Why are you so quiet	145
पास क्या था	
What did I have	147
पिछला पहर	
The last hour of night	149
क्रांतिल	
Murderer	153
कोई भटकता बादल	
A wandering cloud	157
सच भी झूटा है	
Truth is also a lie	159
ख्वाब	
Dreams	163
यह तब की बात है	
It was then	165
नोहा	
Elegy	167